

श्री अनिल कुमार झा ने सीआईएल के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया



श्री अनिल कुमार झा
अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड

श्री अनिल कुमार झा ने 18 मई, 2018 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सीआईएल के शीर्ष पद धारण करने से पहले, श्रीमान झा ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) - सीआईएल की सभी अनुषंगियों दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी - में 1 नवंबर, 2015 से सीएमडी के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया है। सीआईएल के कुल उत्पादन का 25% और कुल कोयले की आपूर्ति का लगभग 24% योगदान एमसीएल प्रदान करता है।

श्रीमान झा, श्री सुरेश कुमार, आईएएस, सचिव, कोयला मंत्रालय जिन्हें सीआईएल के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, का स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री झा, ने इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद से खान योजना और डिजाइन में उत्कृष्टता के साथ स्नातकोत्तर (एमटेक) किया है, 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने कैरियर की शुरुआत किये। उन्होंने सीसीएल में कई महत्वपूर्ण कार्य और वरिष्ठ पदों पर कार्य सम्पादन किया है। वे महाप्रबंधक, अर्गदा भी रहे हैं। श्री झा का सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट (सीएमपीडीआई) - सीआईएल की ओपनकास्ट और भूमिगत खानों की योजना हेतु रांची आधारित सलाहकार शाखा- में 14 वर्ष का कार्यकाल रहा है।

कुछ समय के लिए उन्होंने एमओआईएल लिमिटेड, में निदेशक (पी एंड पी) के रूप में काम किया है, जहां वे उत्पादन, योजना, परियोजना, गुणवत्ता नियंत्रण एवं खान सुरक्षा विभाग तथा कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध सहित अन्य संबन्धित विभाग के प्रमुख एवं मनोनित ऑनर।

श्री झा को भूमिगत खान के साथ-साथ खुली खानों की योजना, उत्पादन, प्रबंधन पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण क्षेत्र में तीन दशकों का अनुभव प्राप्त है।

2017-18 के दौरान एमसीएल के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए श्री अनिल कुमार झा को जियोमाइन टेक द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी' पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में कई तकनीकी प्रस्तुतियाँ दी हैं।